APM FINVEST LIMITED

Corporate Office: 910, Chiranjiv Tower-43, Nehru Place, New Delhi-110019

Phone: (011) 26441015-17, Fax: (011) 26441018, Email: apmfinvestltd@gmail.com
CIN No.: L65990RJ2016PLC054921, Website: www.apmfinvest.com

January 13, 2021

BSE Limited

Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street, Fort, Mumbai - 400001

Ref: Stock Code 542774

Sub: Submission of copies of Newspaper Advertisement- Notice of Board Meeting

Dear Sir,

In continuation of our letter dated January 08, 2021, we enclose copies of the advertisements published on January 12, 2021, in "Business Standard" (English) and "Seema Sandesh" (Hindi) with respect to Notice of Board Meeting scheduled to be held on January 23, 2021.

This is for your information and records.

Thanking you,

Yours faithfully,

For APM Finvest Limited

Nidhi

Company Secretary

Encl: as above

Compact Lamps Private Limited

(In Liquidation) Liquidator: Mrs. Deepika Bhugra Prasad Liquidator Address: E-10A, Kailash Colony, Greater Kailash - I, New Delhi -110048 Email:assetsale1@aaainsolvency.in,deepika.bhugra@gmail.com Mob. - 8800865284 (Mr. Rai Kumar & Mr. Puneet Sachdeva)/ 011-4666 4619 (Mr. Harsh Gupta

E-Auction

Sale of Assets under Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 Date and Time of E-Auction: 18th January, 2021 at 3.00 pm to 5.00 pm Last Date of EMD Submission: 16th January, 2021

(With unlimited extension of 5 minutes each)

SALE NOTICE

Sale of Assets and Properties owned by Compact Lamps Private Limited (in Liquidation) forming part of Liquidation Estate formed by the Liquidator, appointed by the Hon'ble National Company Law Tribunal, Bench-II, New Delhi vide order dated 31st October, 2019 (A copy of same was received by the liquidator on 24.12.2019). The sale will be done by the undersigned through the e-auction platform https://aaa.auctiontiger.net.

Asset	Block	Reserve Price	Initial EMD Amount	Incremental Value
Land and Building Situated at Plot No. C and D Peepalsana, Tehsil- Ramnagar, district-Nainital, Uttarakhand 244716. (Lease hold land) Land admeasuring 8820Sqm	A	4.73 Crore	47 Lacs	10 Lacs
Plant and Machinery Situated at Plot No. C and D Peepalsana, Tehsil-Ramnagar, district- Nainital, Uttarakhand 244716 including Assets R&D, Maintenance Assets, etc.	В	2.13 Crore	21 Lacs	5 Lacs
Inventory situated at Plot No. C & D (Peepalsana), Plot no. B2 (Bajpur) including raw material, Packaging Material and loose CFL/LED etc. (Kindly refer to detailed report for verification of material).	С	2.30 Crore	23 Lacs	5 Lacs

Important Note:

- The E-Auction will be conducted on "AS IS WHERE IS", "AS IS WHAT IS" and "WHATEVER
- THERE IS BASIS" through approved service provider i.e. E-Procurement Technologies Limited 2. The Liquidator has the absolute right to accept or reject any or all offer(s) or adjourn/postpone/cancel the e-Auction or withdraw any property or portion thereof from the auction proceeding at any stage without assigning any reason thereof.

All the terms and conditions are to be mandatorily referred from the website of AAA Insolvency Professionals LLP i.e. https://insolvencyandbankruptcy.in/ publicannouncement/compact-lamps-private-limited/ and from the E-Auction Process Document, prior to submission of EMD and participation in the process. The Liquidator can be contacted on compact.lamps@aaainsolvency.com.

Deepika Bhugra Prasad

+91-8800865284 / 011-46664619

Liquidator in the matter Compact Lamps Private Limited IBBI (Regn. No-IBBI/IPA-003/IP-N000110/2017-2018/11186) Address: E-10A, Kailash Colony, Greater Kailash - I, New Delhi -110048 Email:assetsale1@aaainsolvency.in, deepika.bhugra@gmail.com Contact Person: Mr. Raj Kumar & Puneet Sachdeva:

Date: 11.01.2021 Place: New Delhi

J&K Bank

The Jammu and Kashmir Bank Business Support Division (BSD) Corporate Headquarters M.A.Road, Srinagar 190 001 J&K

e-RFP Notice (e-NIT)

Empanelment of Agency / Agencies for Providing Skilled Manpower to the Bank

Tender Notice along with Complete tender document minimum requirements can be downloaded from and BIDs can be submitted on the Banks' e-Tendering Service Provider Portal https://eauction.auctiontiger.net w.e.f January 12, 2021, 16.00 Hrs. Tender Document can also be downloaded from Bank's Official Website www.jkbank.com. Last date for submission of Bids is February 02, 2021

Regd. Off: SP-147, RIICO Industrial Area, Bhiwadi, Dist. Alwar, Rajasthan-301019 Ph: 01493-265400, Fax: 01493-265413, CIN: L65990RJ2016PLC054921 E-mail id: apmfinvestltd@gmail.com, Website: www.apmfinvest.com

NOTICE OF BOARD MEETING

Notice is hereby given that pursuant to Regulation 29 read with Regulatior 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 that the meeting of the Board of Directors of the Company is scheduled to be held on Saturday, January 23, 2021, inter-alia, to consider and approve the Un-audited Financial Results of the Company for the quarter and nine months ended December 31, 2020 (the "Financia

A copy of this Notice and Financial Results shall also be available at the Company's website www.apmfinvest.com and the website of the Stock Exchange <u>www.bseindia.com</u>. For APM Finvest Limite

Place: New Delhi Date: 09.01.2021

Nidhi **Company Secretary**

Branch: Bus Stand, Alwar Code- 31051

Whereas The undersigned being the Authorised Officer of the State Bank of India under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act 2002 (No. 3 of 2002) and in exercise of powers conferred under section 13(12) read with rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 issued a demand notice dated 18.06.2020 calling upon the Borrower M/s Shree Shyam Customer Satisfaction to repay the amount mentioned in the notice being Rs. 30,43,638.00 (Thirty Lakhs Fourty Three Thousand Six Hundred Thirty Eight Only) as on 18.06.2020 + Interest upto 18.06.2020 within 60 days from the date of receipt of the section of the control of the contro

The borrower having failed to repay the amount, notice is hereby given to the borrower and the publicingeneral that the undersigned has taken possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him under Sub-Section (4) of Section 13 of Act read with rule 8 o

in exercise of powers conterred on him under Sub-Section (4) of Section 13 of Act read with rule 8 of the Security Interest Enforcement Rules 2002 on this the Date 08.01.2021.

The Borrower/Guarantor in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the property and any dealing with the property will be subject to the charge of the State Bank of India for an amount of Rs. 30,43,638.00 (Thirty Lakhs Fourty Three Thousand Six Hundred Thirty Eight Only) as on 18.06.2020 and Interest up to 18.06.2020 and further interest, costs, etc. thereon. The Borrower's attention is invited to provisions of Sub-section(8) of Section 13 of the Act, In respect of time available, to redeem the secured assets.

All that part and partial of the shop no. 208 (without upper floor roof right), 2nd floor, Wonder Mall, Block-A, Kedal Ganj, Alwar, Distt- Alwar (Rajasthan) standing in the name of Sh. Vimal Kumar Pathik S/o Sh. Kishori Lal Pathik. Total measuring 482.00 sq. feet. **Bounded:** On the East by open corridor, On the West by open to ground floor, On the North by Shop No. 207, On the Solid health of the Shade of Mace: Alwar (Raj.) Date: 08.01.2021

BARODA RAJASTHAN KSHETRIYA GRAMIN BANK Branch- Bhusavar, Distt.- Bharatpur (Raj.)

APPENDIX IV [Rule 8(I)] POSSESSION NOTICE (For Immo Whereas, The undersigned being the Authorised Officer of the Baroda Rajasthan Kshetriy Gramin Bank under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement Security Interest Act, 2002 (No. 54 of 2002) and in exercise of powers conferred under Section Security interest Act, 2002 (No. 34 of 2002) and in exercise of powers conferred under Section (13(12) read with Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 issued a **Demand Notice** dated 01.07.2020 calling upon the Borrower M/s Devi Ghunghroo Udhyog Etamada Prop. Sh. Devi Singh Dhakad S/o Sh. Bhuri Singh Dhakad, Sh. Bhuri Singh Dhakad, Sh. Bhuri Singh Dhakad, Sh. Bhuri Singh Dhakad, Sh. Bhuri Singh S/o Sh. Bhullan Singh, Sh. Sohan Singh S/o Sh. Bhullan Singh to repay the amount mentioned in the notice being amount of Rs. 11,50,1877-in Term Loan A/c (A/c No. 40004000015). 44090600000156) and Rs. 5,88,343/- in Overdraft Loan A/c (A/c No. 44090400000102), Thus Total Amount in Both A/c is Rs.17,38,530/- including interest upto 30.06.2019 and further interest, other expenses thereon within 60 days from the date of receipt of the said notice.

The Borrowers having failed to repay the amount, notice is hereby given to the Borrowers and the public in general that the undersigned has taken possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him under Section 13 and sub Section (4) of the said Act read with Rule So of the security interest (Enforcement) Rule 2002 on this **06th** day of **Month** Jan. of the year 2021. The Borrowers in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the property will be subject to the charge of Baroda Rajasthan Kshetriya Granin Bank, for an amount of **Rs. 12,31,015/-** in Term Loan A/c (A/c No. 44090600000156) and **Rs.** 6,35,813/- in Overdraft Loan A/c (A/c No. 44090400000102), Thus Total Amount in B Rs.18,66,828/- including interest upto 05.01.2021 and further interest and other expenses thereor.

The Borrower's attention is invited to provisions of sub-section (8) of section 13 of the Act, in respect of time available, to redeem the secured assets.

Description of the Immovable Property (As per records available in Bank All that part and parcel of for the Residential property situated at, Patta No. 25, Vill. Etamada Mohalla Bada Nagla, Post- Etamada, Gram Panchayat- Etamada, Tehsil- Bhusavar, Distt. Bharatpur (Raj.) in the name of Sh. Bhuri Singh Dhakad S/o Sh. Genda Dhakad. (Admeasuring 84 Sq. yds. as per available in bank record) Registered under Sub District Bhusavar and District Bharatpur (Raj.). Boundaries: East: Property of Sh. Sohan Lal Dhakad, West: Property of Sh. Teja Dhakad, North: Property of Sh. Bhisoli Dhakad, South Baroda Rajasthan Kshetriya Gramin Bank Date : 06.01.2021, Place : Bhusavar

Business Standard DELHI EDITION

Printed and Published by Nandan Singh Rawat on behalf of Business Standard Private Limited and printed at The Indian Express (P) Ltd. A-8, Sector-7, Noida, Gautam Budh Nagar-201301 and published at Nehru House, 4 Bahadui Shah Zafar Marg, New Delhi 110002

> Editor: Shyamal Majumdar RNI NO. 57376/1994

Readers should write their feedback at feedback@bsmail.in Ph. 011-23720202, Fax:+91-11-23720201

> For Subscription and Circulation enquiries please contact: Ms. Mansi Singh **Head-Customer Relations**

H/4 & I/3, Building H, Paragon Centre, Opp Birla Centurion, P.B. Marg, Worli, Mumbai - 400013 E-mail: subs bs@bsmail.in "or sms, SUB BS to 57007"

Business Standard Private Limited

DISCLAIMER News reports and feature articles in Business Standard seek to presen an unbiased picture of developments in the markets, the corporate world and the government. Actual developments can turr out to be different owing to circumstance beyond Business Standard's control and knowledge. Business Standard does no take any responsibility for investment o business decisions taken by readers on the basis of reports and articles published in the newspaper. Readers are expected to form their own judgement.

Business Standard does not associate itsel with or stand by the contents of any of the advertisements accepted in good faith and published by it. Any claim related to the advertisements should be directed to the advertisers concerned.

Unless explicitly stated otherwise, all rights reserved by M/s Business Standard Pvt. Ltd Any printing, publication, reproduction, transmission or redissemination of th ontents, in any form or by any means, i prohibited without the prior written consen of M/s Business Standard Pvt. Ltd. Any such prohibited and unauthorised act by any person/legal entity shall invite civil and riminal liabilities

No Air Surcharge

DEMAND NOTICE of Financial Assets And Enforceme Under Section 13(2) of the Securitisation And Reconstruction of Financial Assets And Enforcemen for Security Interest Act, 2002 (the said Act.) read with Rule 3 (1) of the Security Interest Fenforcement, Bulkes, 2002 (the said Act.) read with Rule 3 (1) of the Security Interest Fenforcement, Bulkes, 2002 (the said Rules, Leave Authorised Officer of ITEL Home Finance Ltd.) the said Rules, the Authorised Officer of ITEL Home Finance Ltd. In the Finance Ltd. In the Finance Ltd. In the Security Interest Parallel Rules (1) of the said Act, calling upon the Borrower(s), to repay the amount nentioned in the respective Demand Notice(s) issued to them. In connection with above, notice, she reby given, once again, to the Borrower(s) issued to them. In connection with above, notice, the amounts indicated herein below, together with further interest from the date(s) to Demand Notice and security offered towards repayment of loan amount are as under Jensen of the Borrower (s).

Demand Notice

Demand Notice Notice Notice (mimovable property) being the Parallel Rules Notice (mimovable property) Inder Section 13(2) of the Securitisat Guarantor (s)

Date and Amount

Mr. Deepak Singh Tomar,

Of-Jan-2021 Rs.34,44,758/Mrs. Archana Tomar

Prospect No. 753446)

Fibr Eight Only)

The said Borrowers fail to make payment to IIFL HFL as aforesaid, IIFL HFL may proceed against the above ecured assets under Section 13(4) of the said Act. and the applicable Rules, entirely at the risks, costs and onsequences of the Borrowers. or further details please contact to Authorised Officer at **Branch Office:-** 4-10 & A-10. 2nd floor Noida Sec16. oida Gautam Budh Nagar-201301/Or Cornorate Office : TIFL Tower Plot No 98 Ildyog Vihar Pha aryana. Place: Ghaziabad Date: 12-01-2021 Sd/- Authorised Officer For IIFL Home Finance Ltd. (IIFL HFL

() ICICI Bank

Corporate Office: ICICI Bank Tower, Bandra Kurla Complex, Mumbai 400 051

Branch Relocation Notice

Dear Customers,

We wish to inform you that we are relocating a branch to a more convenient location as per details mentioned below:

Present address: ICICI Bank Ltd., 65 Jyoti Building, 66 Chandra Building, Nehru Place, New Delhi - 110019 New address: ICICI Bank Ltd., S-1 American Plaza, Eros Hotel, Nehru

Place, New Delhi - 110019 The branch will be operational at the new address from February 1.

The movement of lockers to the new location is being arranged where you would be able to access them from February 1, 2020. There would be no change in your account numbers or the security items issued to

Assuring you of the best services Sincerely

Branch Manager

BARODA RAJASTHAN KSHETRIYA GRAMIN BANK APPENDIX IV [Rule 8(i)] POSSESSION NOTICE (For Immovable Property)

Whereas, The undersigned being the Authorised Officer of the Baroda Rajasthan Kshetriya Gramin Bank under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcemen Security Interest Act, 2002 (No. 54 of 2002) and in exercise of powers conferred under Section 13(12) read with Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 issued a **Demand Notice** dated 01.07.2020 calling upon the Borrower Smt. Mamta Pandey W/o Sh. Vijaypal Pandey, Sh Chetram Pandey S/o Sh. Ishwar Chand Pandey to repay the amount me being amount of Rs. 6.28.627/- in Cash Credit Hyptothication Limit Loan A/c (A/c No 44090500000747) and Rs. 7,565/- in Term Loan A/c (A/c No. 44090600000353), Thus Total Amount in Both A/c is Rs.6,36,192/- including interest upto 30.06.2019 and further intere other expenses thereon within 60 days from the date of receipt of the said notice.

The Borrowers having failed to repay the amount, notice is hereby given to the Borrowers and the pub in general that the undersigned has taken possession of the property described herein below exercise of powers conferred on him under Section 13 and sub Section (4) of the said Act read with Ru 8 of the security interest (Enforcement) Rule 2002 on this **66th day of Month Jan. of the year 2021**. The Borrowers in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the prope and any dealings with the property will be subject to the charge of Baroda Rajasthan Kshetriya Gran Bank, for an amount of Rs. 6,69,531/- in Cash Credit Hyptothication Limit Loan A/c (A/c No 44090500000747) and Rs. 8,057/- in Term Loan A/c (A/c No. 44090600000353), Thus Total Amount in Both A/c is Rs.6,77,588/- including interest upto 05.01.2021 and further interest and other expenses thereon. The Borrower's attention is invited to provisions of sub-section (8) of section 13 of the Act, in respect of time available, to redeem the secured assets.

escription of the Immovable Property (As per records available in Bank All that part and parcel of for the Residential property situated at, Barpada Mohalla, Vill. & Post- Bhusavar, Teh. Bhusavar, Disst.- Bharatpur (Raj.) in the name of **Sh. Chetram** Pandey S/o Sh. Ishwar Chand Pandey. (Admeasuring 968 Sq. ft. as per available in bank record) Registered under Sub District Bhusavar and District Bharatpur (Raj.) Boundaries: East: Rasta, West: Property of Sh. Prakash Chand Pandey, North: Property of Sh. Yadram S/o Sh. Ishwar Brahman, South: Rasta. **Authorised Offic** Date : 06.01.2021, Place : Bhusavar Baroda Rajasthan Kshetriya Gramin Bank

(U.P.), Ph.No.: 0120-2583582, 2583585, 2583594 (Rule-8(1)) POSSESSION NOTICE (for immovable property)

Whereas the under signed being authorized officer of the Indian Bank, under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 and in exercise of powers conferred under section 13(12) read with the rule 8 and 9 on the said date mentioned against the powers cornerred under section 13(12) read with the rule 8 and 9 on the said date mentioned against the account issued demand notice calling upon the following Borrower/ Co-Borrower/ Mortgagor / Guarantor to repay the amount mentioned in the notice (s) with in the 60 days from the said notice (s). The Borrower/ Co-Borrower / Mortgagor/ Guarantor having failed to pay/repay the amount, notice is hereby given to the Borrower/ Co-Borrower/Mortgagor/Guarantorand the public in general that the undersigned has taken possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him/her under subsection 13(4) of the said Act read with rule 8 & 9 of the said rule on this below mentioned date. The section 13(4) of the said Act read with rule of & 9 of the said rule on this below mentioned date. The Borrower/ Co-Borrower/ Mortgagor/ Guarantor in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the property will be subject to the charge of the Indian Bank, KAUSHAMBI BRANCH for notice Outstanding amount and interest & Other Charges thereon. The borrower's attention is invited to provision of sub-section (8) of section 13 of the act in respect of the time

available, to redeem the secured assets.					
Name of the Borrower/Guarantor	Description of Immovable Property	Demand Notice Date	Date of Possession	Outstanding Amount	
Borrower: Creative Nest	All that part and parcel of the property consisting	17.01.2019	11.01.2021	Rs.	
Mr. Vijendra Yadav	of residential plot at khasra no. 427, admeasu			23,13,598.60	
(Proprietor) and Mr.	-ring area 390 Sq. Yard or 326.07 Sq. Mtr. situ			as on	
Rohtash Yadav	-ated at vill-Ranauli, Tehsil- Dadari, Distt- Gautam			01.01.2019	
(Guarantor)	Budh Nagar (UP). Bounded By: On the North: 18'			+ interest &	
,	wide road. On the South: Plot of other. On the			other	
	East : Plot seller. On the West : Plot seller.			Charges	
Date: 11.01.2021	Place: Noida	Authori	sed Officer,	Indian Bank	



MENTOR HOME LOANS INDIA LTD

HEAD OFFICE- Mentor House, B-9, Govind Marg, Sethi colony, Jaipur-302004

APPENDIX IV [See Rule 8(1)] POSSESSION NOTICE (For Immovable property)

Whereas, the undersigned being the Authorized Officer of Mentor Home Loans India Ltd. (Formerly known as Mentor India Limited under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act 2002 (54 of 2002) and in exercise of powers conferred under Section 13(12) Read With Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules 2002, Demand Notice (S) Issued by the Authorised Officer of the Company to the Borrower(S) / Co-Borrower(S) / Guarantor(S) mentioned herein below to repay amount mentioned in the notice within 60 days from the date of receipt of said notice as per the details given in below table: The borrower having failed to repay the amount, notice is hereby given to the Borrower(S) / Co-Borrower(S) / Guarantor(S) and the public in general that the undersigned has taken possession of the property described herein below in exercise of powers conferred under Sub-Section (4) of the section 13 of the said Act read with Rule 8 of the Security Interest Enforcement rules, 2002.

	()					
S. No.	Name of the Borrower (S) / Co-Borrower (S) / Guarantor(S) & (Loan Account Number)	Date & Amount of Notice u/s 13(2)	Description of Secured Asset (Immovable Property)	Date of Physical Possession		
	Bhagu Lal Gurjar, Gita Devi, Guarantor- Jagdish Singh LAN No MHL04820	Rs. 1892536/- Dues	Patta No. 38, Gram Karniya, Gram Panchayat Kankrod, Tehsil Devgarh, Dist. Rajasamand, Raj. Total Admeasuring Area 1593.1875 Sq. Ft.	6-Jan-2021		

The borrower(S) / Co borrower(S) / Guarantor(S) attention is invited to provisions of sub-section (8) of section 13 of the Act, in respect of time available, redeem the secured assets. ver in particular and the public in general are hereby cautioned not to deal with the property and any dealing with the

property will be subject to the charge of Mentor Home Loans India Ltd. (Formerly known as Mentor India Limited) for an amount, amount mentioned here under with interest thereon.

Authorised officer, Mentor Home Loans India Ltd. Authorised officer, Mentor Home Loans India Ltd. Date: 12-01-2021 Place: Rajsamand (Formerly Known as Mentor India Limited)

SCHEDULE II FORM B

PUBLIC ANNOUNCEMENT

(Regulation 12 of the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Liquidation Process) Regulations, 2016)

		OF THE STAKEHOLDERS ER PRIVATE LIMITED
1.	Name of Corporate Debtor	A TO Z BARTER PRIVATE LIMITED
2.	Date of Incorporation of Corporate Debtor	27/05/2008
3.	Authority under which Corporate Debtor is Incorporated/Registered	RoC-Delhi
4.	Corporate Identity No. / Limited Liability Identification No. of corporate debtor	U70102DL2008PTC178620
5.	Address of the registered office & principal office (if any) of corporate debtor	310 C-1/A 3rd Floor M.S. Chamber, Aruna Park, Laxami Nagar, East Delhi, DI-110092 IN
6.	Date of closure of Insolvency Resolution Process	3rd January, 2021
7.	Liquidation commencement date of Corporate Debtor	4th January, 2021 (A copy of NCLT order received on 8th January, 2021)
8.	Name & Registration Number of Insolvency Professional acting as Liquidator	Sanjay Garg IBBI Reg. No. IBBI/IPA-001/IP-P-01865/ 2019-2020/12919
9.	Address and Email of the liquidator as registered with the Board	Address: 193 Agroha Kunj, Sector 13, Rohini, North West, National Capital Territory of Delhi-110085 Email: kronedelhi@gmail.com
10.	Address and e-mail to be used for correspondence with the liquidator	Sanjay Garg C/o Osrik Resolution Private Limited Address: 908, D Mall, Netaji Subhash Place, Pitam Pura, Delhi, 110034 Email : liq.atozbarter@gmail.com

1. Last date for submission of Claims 7th February, 2021 Notice is hereby given that the Hon'ble National Company Law Tribunal, Principal Bench, New Delhi has nencement of liquidation of the M/s A TO Z BARTER PRIVATE LIMITED on 4th January, 2021 under section 33 of the Code. Order received on 8th January. 2021. The stakeholders of A TO Z BARTER PRIVATE LIMITED are hereby called upon to submit a proof of the

Ph: 011-41754949

claims, on or before 7th February, 2021, to the liquidator at the address mentioned against item 10. The financial creditors shall submit their proof of claims by electronic means only. All other stakeholde may submit the proof of claims in person, by post or by electronic means

nission of false or misleading proofs of claim shall attract penalties

Sanjay Garg Liquidator in the matter of A TO Z BARTER PRIVATE LIMITED Date: 11.01.2021 IBBI Reg.No.: IBBI/IPA-001/IP-P-01865/2019-2020/12919



PLACE: NEW DELHI, DATE: 12.01.2021

RECOVERY DEPT SOUTH DELHI REGION SOUTH DELHI PH: 011-23441148/1116

SALE NOTICE FOR SALE OF IMMOVABLE PROPERTIES

RAMESH KUMAR JHAMB AUTHORIZED OFFICER, BANK OF BARODA

"APPENDIX- IV-A [See proviso to Rule 8 (6) & 9 (1)]

E-Auction Sale Notice for Sale of Immovable Assets under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 read with proviso to rule Rule 8 (6) & 9 (1) of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002.

Notice is hereby given to the public in general and in particular to the Borrower(s) and Guarantor(s) that the below described immovable property mortgaged/charged to the Secured Creditor, Possession of which has been taken by the Authorized Officer of Bank of Baroda, Secured Creditor will be sold on "As is where is" "As is what is", and "Whatever there is" for recovery of below mentioned account/s. The detail of Borrower(s) /Guarantor(s) /Secured Asset(s)/Dues/Reserve Price/e-Auction date and time, EMD and Bid increase amount are

S. No	Name of the borrower . and Guarantors	Detailed description of the immovable property with known encumbrances, if any	Total Dues	Date & time of E-auction	Reserve Price EMD Minimum bid increase amount	Statusof Possession (Constructive /Physical)	Property Inspection date & Time
1.	M/s. Modern Steel Traders, Proprietor Late Shree Ankur Gupta Through its legal representative 1Smt. Shubhangi Gupta, W/o Late Sh. Ankur Gupta 2Smt. Asha Gupta, Mother of Late Sh. Ankur Gupta 3-Minor Mr. Shriyam Gupta S/o Late Sh. Ankur Gupta c/o Smt. Shubhangi Gupta (Guardian) W/o Late Sh. Ankur Gupta, Address of all Legal heirs: 48, Navyug Market, Ghaziabad, Uttar Pradesh, 201001 and 6 other Addresses Guarantor: Smt. Beenu Gupta w/o Sh. Ajay Gupta Address: E-5 11 DLF Phase 1 Arjun Marg, Gurgaon, Haryana-122001 & 7 other Addressees, (B-3, Connaught Circus Branch)	Commercial Shop no G-5 & G-6, Ground floor without roof right, plot no. R-14/48 Shopper's Square Mall, Sector-14, Raj Nagar Ghaziabad, in name of legal heirs of Late Shree Ankur Gupta Area-(587 Sq. Ft.) Bounded By: North: Open/Parking, South: Entry/ Shop no 7, East: Other Property, West: Shop no 4	Rs. 241.80 Lacs plus further interest, Other charges and Expenses thereon w.e.f. 17.05.2019	30.01.2021 02:00PM to 06:00PM	Rs. 46.62 Lacs Rs. 4.67 Lacs Rs. 0.25 Lacs	Physical	From 14.01.2021 to 28.01.2021 FROM 11.00 AM TO 04.00PM (except on Sunday, Second Saturday & public holiday)
2.	Borrower: Ms. Surinder Kaur & Mr. Raja Rupinder Guarantor: Mrs. Manmeet Kaur (Chhatarpur eDena branch)	Buildup Entire First Floor (Without Roof Rights) Out of freehold build— up Property No. C-85-B, Area measuring 100 sq yards. Approx (30' *30') Part of Khasra No538, Situated in the area of Village —Tihar, Delhi State, Delhi,Colony known as Fateh Nagar in C-Block, New Delhi-110018.	(Twenty Three Lakh Eighty Thousand Only) and further interest thereon at the contractual rate plus legal charges and other expenses till day of payment	30.01.2021 02:00PM to 06:00PM	Rs. 45.00 Lacs Rs. 4.50 Lacs Rs. 0.25 Lacs	Physical	From 14.01.2021 to 28.01.2021 FROM 11.00 AM TO 04.00PM (except on Sunday, Second Saturday & public holiday)
3.	Borrowers: 1) Manisha Subhash w/o Subhash K Y 2) Subhash K Y s/o Sahadevan (Bhogal Branch)	Built up Entire First Floor without roof rights of property bearing no.1020-C, Ward Number 7 (Old Number 1020/7) Khasra No.1151/3 min., situated at in urbanized Village Mehrauli, Tehsil Hauz Khas, New Delhi 110030, plot area 75.249 sq mtr (Approx. 90 sq. yds.), Bounded as under: North: Dargah Wall, South: House of Shri Mohan Lal, East: Babar Building, West: Road, Owner- Manisha Subhashw/o Mr. Subhash K S	plus further interest, Other charges and Expenses	30.01.2021 02:00PM to 06:00PM	Rs. 25.00 Lacs Rs. 2.50Lakh Rs. 0.25 Lakh	Physical	From 14.01.2021 to 28.01.2021 FROM 11.00 AM TO 04.00PM (except on Sunday, Second Saturday & public holiday)
	For detailed terms and conditions of sale, please refer to the link provided in https://www.bankofbaroda.in/e-auction.htm and https://ibapi.in. Also, prospective bidders may contact the authorized officer Mr. Ramesh Kumar Jhamb on Tel No. 011-23441148/1116 Mobile 8376015472						



सीमा सन्देश मंगलवार, 12 जनवरी, 2021, जयपुर

तुनगरिया ने रोडवेज चीफ मैनेजर को भेंट किए मास्क

चूरू (सीमा सन्देश सं.)। रोडवेज चूरू आगार कार्यालय में समाजसेवी व पर्यावरण प्रेमी शिक्षक बाबूलाल तुनगरिया ने अपने कोरोना वायरस संक्रमण रोकथाम व जन जागरूकता अभियान के तहत मुख्य प्रबंधक अनुपमा सारस्वत को मास्क भेंट किए। इस मौके पर मुख्य प्रबंधक अनुपमा सारस्वत कहा कि कोरोना वायरस का कहर दुनियाभर में फैला हुआ है। कोरोना महामारी से बचाव के लिए जागरूकता अहम है। ऐसे में लोगों को जागरूक करने के लिए तुनगरिया की ओर से किए जा रहे प्रयास सराहनीय हैं। तुनगरिया ने लॉकडाउन से लेकर अब तक निरंतर चल रहे अपने जन जागरूकता अभियान के बारे में जानकारी देते हुए चूरू आगार परिसर में पौधरोपण करने का आश्वासन दिया। उन्होंनेचूरू आगार के कर्मचारियों के लिए जरूरत पडने पर मास्क उपलब्ध करवाने की बात कही। इस दौरान आगार कर्मचारी मौजूद थे।

लाटा की प्रण्यतिथि पर हुआ़ दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन

सरदारशहर (सीमा सन्देश सं.)। तहसील के ग्राम देवासर में स्व. गोविन्दराम लाटा की पुण्यतिथि पर दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। जिसमें 1600 मीटर की दौड में प्रथम स्थान पर शंकरलाल मेघवाल ग्राम देवासर, द्वितीय स्थान पर पवन कुमार ग्राम पिथाना व तृतीय स्थान पर पवन कुमार ग्राम देवासर रहे। जिन्हें हुक्मीचंद लाटा, लुकसा डिफेंस एकेडमी के कोच वीरसिंह, ओमप्रकाश (भूतपूर्व फौजी), मोतीलाल पीटीआई ने पुरुस्कार देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर समस्त लाटा परिवार के सदस्य व यूथ टीम के कार्यकर्ता मौजूद रहे। सुरेश लाटा ने सभी का आभार प्रकट किया।

पहले दिन एक भी नामांकन दाखिल नहीं हुआ

मंडावा (सीमा सन्देश सं.)। मंडावा नगर पालिका चुनाव को लेकर सोमवार को उप तहसील कार्यालय में नामांकन प्रक्रिया शुरू हुई। रिटर्निंग अधिकारी व मलसीसर एसडीएम शक्तंतला चौधरी ने बताया कि सोमवार को मंडावा नगर पालिका के 25 वार्डी के लिए होने वाले चुनाव को लेकर नामांकन प्रक्रिया शुरू हुई तथा पहले दिन एक भी नामांकन दाखिल नहीं हुआ। रिटर्निंग अधिकारी ने बताया कि पहले दिन 22 दावेदारों ने नामांकन फार्म लिए तथा नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 15 जनवरी रहेगी एवं नामांकन पत्रों की संवीक्षा 16 जनवरी को सुबह 10:30 बजे से की जाएगी वहीं नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि 19 जनवरी रहेगी। 20 जनवरी को चुनाव चिन्हों का आवंटन किया जाएगा एवं 28 जनवरी को मतदान होगा।



संजीवनी चाय पत्ती की हुई लॉन्चिंग

मंडावा (सीमा सन्देश सं.)। कस्बे के चोपदार हवेली में सोमवार को संजीवनी चाय पत्ती के लॉन्चिंग हुई। अतिथि भाजपा किसान मोर्चा के पूर्व जिला अध्यक्ष दिनेश धाभाई, भाजपा जिला उपाध्यक्ष प्यारेलाल ढुकिया, पूर्व पार्षद रामस्वरूप चोपदार, पूर्व पालिकाध्यक्ष राधेश्याम सैनी, इब्राहिम रंगरेज, महावीर सिंह दुराना व मंडल अध्यक्ष मोहनलाल सैनी ने संजीवनी चाय पत्ती की लॉन्चिंग की। दिनेश तंवर सुजानगढ़ वाले ने बताया कि इससे पहले संजीवनी चाय की छह जिलों में लॉन्चिंग की जा चुकी है तथा झुंझुनु सातवां जिला है। तंवर ने बताया कि मैंने 1975 से इस चाय पत्ती को बाजार में उतारा था तथा कडे संघर्षों के बाद चाय पत्ती की पहचान बनाई। इस अवसर पर मधुसूदन खेमानी, कैलाश शर्मा, संजय परिहार, किशोर सिंह, बाबुलाल सैनी, संजय चोपदार, गोविंद जोशी, संजय मील, सचिन मोदी सहित कस्बे के गणमान्य लोग व व्यापारी उपस्थित थे।

हरीश कुमार वर्मा बने परिषद के प्रांत सह मंत्री



चुरू (सीमा सन्देश सं.)। आखल भारतीय विद्यार्थी परिषद का 56वा प्रांत अधिवेशन सावली रोड आदर्श विद्या मंदिर सीकर में संपन्न हुआ। परिषद के जिला संयोजक रोहित भाकर व जिला प्रमुख कौशल पुनिया ने बताया अधिवेशन के अंतिम सत्र

में चूरू जिले में नवीन घोषणाएं हुई। उन्होंने बताया कि हरीश वर्मा को पुन: प्रांत सह मंत्री मनोनीत किया गया। इसी क्रम में माया सैनी व सुभाष जाखड़ को प्रांत कार्यकारणी सदस्य मनोनीत किया गया। वर्मा के पुन: प्रांत सहमंत्री बनने को लेकर परिषद के वरिष्ठ व युवा पदाधिकारियों ने हर्ष जताया।

सर्पंच संघ पदाधिकारियों ने आदेशों की प्रति जला जताया सरकार के प्रति आक्रोश

चूरू (सीमा सन्देश सं.)। सरपंच संघ राजस्थान के पदाधिकारियों ने सोमवार को पंचायत समिति के आगे विरोध प्रदर्शन कर ग्राम पंचायत के ब्याज रहित पीडी खाते खोलकर संवैधानिक वित्तीय अधिकारों में की जा रही कटौती को लेकर आक्रोश जताया। इस दौरान दिए गए धरने के बीच पदाधिकारियों ने सरकार के आदेशों की प्रतियां जलाकर कर राज्य सरकार के आदेश का विरोध किया। बाद में विकास अधिकारी को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। इस मौके पर देपालसर सरपंच बलवीर ढाका ने बताया कि गत 2 वर्षों से कुछ प्रशासनिक अधिकारियों व जनप्रतिनिधियों द्वारा



संस्थाओं के चुनाव की दयनीय स्थिति अतिरिक्त राज्य वित्त आयोग का एक भी कर दी गई है। वहीं दूसरी ओर रुपया ग्राम पंचायतों को हस्तांतरित नही पंचायतीराज संस्थाओं के प्रशासनिक व पंचायतीराज संस्थाओं की वित्तीय हालात किया गया है। ग्राम पंचायतों के वित्तीय वित्तीय हितों पर लगातार कुठाराघात किया बहुत नाजुक किए जा रहे है। गत 02 वर्षों स्वायत्ता एवं संवैधानिक वित्तीय जा रहा है। जहां एक ओर पंचायतीराज में केंद्रीय वित्त आयोग की राशि के अधिकारों पर कुठाराघात करते हुए पिछले

दरवाजे से ग्राम पंचायतों के ब्याज रहित पीडी खाता खोल दिए गए हैं। संघ वित्त विभाग व पंचायती राज विभाग के इस निर्णय की कडी निंदा करता है। साथ ही सरपंच संघ ने निर्णय किया है कि प्रदेश का कोई भी सरपंच कोषालय एवं उप कोषालय में जीडी और कोड जनरेट नहीं करवाएगा। ना ही लॉगिन आईडी बनाने के लिए कोई दस्तावेज प्रस्तुत करेगा। इस दौरान रामकरण फगेड़िया, घांघू सरपंच विमला देवी, दांदू सरपंच भंवरी देवी, कोटवाद सरपंच गट्ट कंवर, सहनाली छोटी सरपंच कैलाश कुमार, श्योपुरा सरपंच श्रवण, जसरासर सरपंच रीना कंवर. संजय कुमार, नरेंद्र कोटवाद, दुधवाखारा सरपंच सिणगारी, हरदयाल सिंह, कडवासरा सरपंच सुरेंद्र प्रजापत, इंद्रपुरा सरपंच किशन सिंह आदि मौजूद थे।



सादगी और विनम्रता की मिशाल थे पूर्व पीएम शास्त्री : चौहान

 कांग्रेसजन ने मनाई पुण्यतिथि

की तरफ अपना संकल्प दिखाया, वहीं नेता को याद किया।

यह भी संदेश दिया कि किसानों की मजबूती के बिना देश मजबूत नहीं हो सकता है। आज केंद्र सरकार की चूरू (सीमा सन्देश सं.)। हठधर्मिता के कारण देश का बदहाल कांग्रेसजन ने सोमवार को शहर में किसान सर्दी में सड़कों पर ठिठुरने को आथुणा मोहल्ला स्थित पार्टी कार्यालय मजबूर है। उन्होंने शास्त्री के आदर्शों में पूर्व प्रधानमंत्री लालबहादुर शास्त्री को अपनाने का आह्वान किया। इस की पुण्यतिथि मनाई। इस मौके पर मौके पर कांग्रेस आईटी सेल के जिला वरिष्ठ कांग्रेस नेता जमील चौहान ने संयोजक रफीक चौहान, दिलीप कहा कि लाल बहादुर शास्त्री सादगी सिंधी, हारून गौरी, निसार खान, और विनम्रता की मिशाल थे। उन्होंने दीपिका सोनी, ज्योति सिंह, भावना देश को सक्षम नेतृत्व दिया। जय जवान शर्मा, इकबाल खां रूकनखानी, जय किसान का नारा देने वाले शास्त्री अकरम रसूल खां व महेश मिश्रा आदि ने एक तरफ सीमाओं को मजबूत करने ने भी पुष्प अर्पित कर देश के महान्



गोगामेड़ी में ठाकुरजी को लगाया पीषबड़ा का भोग

चूरू (सीमा सन्देश सं.)। गोगामें डी चेरिटेबल ट्रस्ट की ओर से गोगामेडी परिसर में आयोजित पौषबड़ा महोत्सव में उमड़े श्रद्धालुओं ने ठाकुर जी को पौषबडा का भोग लगा प्रसाद ग्रहण किया।

विप्र फाउंडेशन के जिलाध्यक्ष विश्वनाथ राजगुरु ने बतया कि गत चार वर्षों से लगातार हो रहे आयोजन में उमडे श्रद्धालुओं ने पौषबडा का धार्मिक महत्व जाना। इस मौके पर श्रद्धालुओं को बडे व इमरती का प्रसाद भेंट किया गया। महेंद्र कुमार शर्मा ने पौषबडा का वैज्ञानिक महत्व बताते हुए कहा कि सर्दी के मौसम में इसे स्वास्थ्य वर्द्धक व पौष्टिकता से भरपुर बताया। इस मौके पर भंवरू खां ठेकेदार, मुकेशकुमार, पदमसिंह राठौड़, सुरेश सारस्वत, फतेहचंद सोती, मनोजकुमार शर्मा, भागीरथ चौधरी, दीपचंद प्रधान, मुखराम मील, संपत धूत आदि मौजूद थे।

पहले दिन ११ नामांकन

हुए दाखिल

नगरपालिका चिडावा में नामांकन

सन्दीप चौधरी ने बताया कि

प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। एसडीएम

नामांकन के पहले दिन आठ वार्डों

से 11 जनों ने नामांकन पत्र दाखिल

किए। रिटर्निंग अधिकारी चौधरी ने

बताया कि वार्ड एक से तीन, दो से

एक, 18 से एक, 20 से एक, 21

से एक, 24 से दो, 30 से एक तथा

दाखिल किया। नामांकन प्रक्रिया में

तहसीलदार महेंद्र मूंड, चुनाव शाखा

वार्ड 40 से एक जने ने पर्चा

के सुरेंद्र कुमार, विनोद शर्मा,

शशिकांत, नंदलाल जांगिड ने

एसडीएम कार्यालय परिसर में

भीड लगी रही।

प्रत्याशियों के साथ समर्थकों की

देवरोड़ में विज्ञान

संकाय स्वीकत

चिडावा (सीमा सन्देश

सं.)। देवरोड के सरकारी स्कूल

मिल गई है। ग्रामीणों को जैसे ही

सराबोर हो गए। सभी ने मिठाई

बांटकर जश्न मनाया। प्रधानाचार्य

सीमा दूत और शारीरिक शिक्षक

जयसिंह धनखड ने बताया कि

विद्यालय में विज्ञान संकाय नहीं

होने से विद्यार्थियों को परेशानी

हो रही थी। सभी ने क्षेत्रीय

विधायक जेपी चंदेलिया का

आभार जताया।

में विज्ञान संकाय की स्वीकृति

सूचना लगी तो वे खुशी से

सहयोग दिया। नामांकन को लेकर

चिडावा (सीमा सन्देश सं.)।

सवाई सागर में संतों के सान्निध्य में लगाया पौषबड़ा का भोग

सवाई सागर बालाजी धाम में झुंझुनू चंचलनाथ टीला आश्रम के महंत ओमनाथ के सान्निध्य में चीलबडा व पौषबडा का आयोजन किया गया। संत ओमनाथ ने सनातन धर्म संस्कृति का महत्व बताते हुए पौषबड़ा आयोजन के वैज्ञानिक कारणों की जानकारी दी। संत ने भारतीय संस्कृति के हर पर्व को मानव व जीव मात्र के लिए कल्याणकारी बताया। संत विचारनाथ ने भजनों की प्रस्तुतियां दी। इससे पहले पौषबडा का भोग लगाकर श्रद्धालुओं को वितरित किया

पीपीएस विद्यालय में हिंदी वाद-विवाद प्रतियोगिता आयोजित

पिलानी (सीमा सन्देश सं.)। पिलानी पब्लिक स्कूल पिलानी सिटी ब्रांच में सोमवार को हिंदी दिवस के उपलक्ष पर हिंदी वाद-विवाद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस वाद विवाद प्रतियोगिता में विद्यालय के छात्र एवं छात्राओं ने बढ-चढ कर भाग लिया। प्रतियोगिता को दो भागों में विभाजित किया गया। पहले भाग में कक्षा आठवीं एवं नौवीं की कक्षाओं के विद्यार्थियों को सम्मिलित किया गयाए जिसमें 'पायश डाला' प्रथम रही, 'समीक्षा' दूसरे स्थान पर रही व 'साक्षी' तीसरे स्थान पर रही। दुसरे भाग में कक्षा छठी एवं सातवीं के छात्र–छात्राओं ने भाग लिया जिसमें 'रिशांक' प्रथम रहे. 'हिमांशी' द्वितीय स्थान पर रही व 'जयंत कटेवा' तीसरे स्थान पर रहे। इस प्रतियोगिता का संचालन स्कुल की प्रधानाध्यापिका मोनिका शर्मा द्वारा किया गया। विद्यालय के चेयरमैन जगदीश प्रसाद शर्मा ने हिंदी दिवस पर सभी छात्र-छात्राओं को बधाई दी और बच्चों को आगे बढने का प्रोत्साहन दिया। विद्यालय प्रधानाध्यापिका मोनिका शर्मा ने विद्यार्थियों का हौसला अफजाई किया।

गुरड़ा ने जताई उप चुनाव के लिए दावेदारी

सुजानगढ (सीमा सन्देश सं.)। सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र में उप चुनावों को लेकर दावेदारों द्वारा टिकट को लेकर ताल ठोके जाने का सिलसिला शुरू हो गया है। लालगढ़ के निवासी वैद्य भगवान स्वरूप गुरड़ा ने भाजपा की टिकट के लिए दावेदारी करते हुए कहा है कि वो एक मात्र भाजपा की

लोगों ने पुलिस के खिलाफ किया प्रदर्शन रतनगढ़ (सीमा सन्देश सं.)। निवासी भगवान सिंह राजपूत ने अपनी तहसील के गांव रतनादेसर व बहन किरण व भांजे कुलदीप का

मां व बेटे के अपहरण का मामला : समाज के

राजलदेसर के बीच एक मां और बेटे राजलदेसर व रतनादेसर के बीच के अपहरण मामले में राजलदेसर अपहरण होने का मुकदमा दर्ज करवाया पुलिस द्वारा कार्यवाई नहीं करने पर था। जिस पर आज तक पुलिस द्वारा आक्रोशित समाज के लोगों ने अ कार्यवाई नहीं करने पर ससुराल पक्ष



का रतनगढ निवासी कन्हैयालाल जाट पक्ष को सकारात्मक जवाब दिया जा द्वारा अपहरण करने का मामला रहा है। इससे परेशान होकर समाज के राजलदेसर पुलिस थाने में दर्ज हुआ लोगों ने आज एसडीएम के पास गुहार था। इस संबंध में सीकर के भिराणा लगाई है।

समाज के लोगों ने

राजलदेसर पुलिस के

खिलाफ आक्रोश व्यक्त

करते हुए नारेबाजी की तथा एसडीएम संबंध में ज्ञापन सौंपा। राजलदेसर पुलिस के खिलाफ जमकर ज्ञापन की प्रतिलिपि चूरु एसपी व नारेबाजी कर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा जिला कलेक्टर को भी प्रेषित की गई है। प्राप्त जानकारी अनुसार राजलदेसर है। समाज के लोगों का कहना है कि थानांतर्गत गांव रतनादेसर में 17 पुलिस द्वारा अब तक आरोपियों की दिसंबर को किरण कंवर व उसके पत्र गिरफ्तारी नहीं की गई है ना ही पीडित

पीसीसी सचिव ने कार्यकर्ताओं से की मंत्रणा सुजानगढ़ (सीमा सन्देश सं.)। प्रदेश कांग्रेस

कमेटी के सचिव डॉ. राजेंद्र मूंड, चुनाव सह प्रभारी डूंगरराम गेंदर, श्रवण कुमार प्रजापत ने कार्यकर्ताओं के साथ निकाय चुनावों को लेकर मंत्रणा की। जय निवास पर आयोजित कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक को सम्बोधित करते हुए पीसीसी सचिव डॉ. राजेंद्र मुंड ने कहा कि कांग्रेस के सभी कार्यकर्ता एकजूट हैं और आने वाले दिनों में सुजानगढ़ नगरपरिषद और बीदासर नगरपालिका पर कांग्रेस की विजय का परचम लहरायेगी। इस अवसर पर कांग्रेस नेता एडवोकेट मनोज मेघवाल ने भी कांग्रेस की जीत का दावा किया। इस दौरान निवर्तमान जिला अध्यक्ष भंवरलाल पुजारी, विद्याधर बेनीवाल, मोहम्मद इदरीश गौरी, राधेश्याम अग्रवाल, बाबूलाल कुलदीप, मोहम्मद अली खां होली धोरा, संजय ओझा, ईकबाल खां, सेजू खां, युनूस खां हाशमखानी सहित अनेक कांग्रेस नेता मौजूद रहे।



की खुदकुशी

के एक युवक की विषैला पदार्थ खाने से मौत

हो गई। पुलिस के अनुसार बारी निवासी

हरिसिंह मेघवाल ने रिपोर्ट दी। जिसमें बताया

कि 8 जनवरी को गांव का विक्रम नरिया पुत्र

रणवीर सिंह बारी का बास में किसी के घर

में घुस गया था। जहां हो-हल्ला सुनकर श्रवण

भी मौके पर पहुंचा। जहां श्रवण ने विक्रम

जनवरी को बारी का बास में रणवीर के पुराने

घर पर पंचायत रखी गई। जिसमें श्रवण को

भी बुलाया गया। पंचायत में मोहरसिंह,

बलवीर पुत्र भानाराम, विकास, सत्यपाल

बराला, मुकेश बराला और नवीन उर्फ रूडिया

ने श्रवण को जान से मारने की धमकी दी

और पंचायत से भगा दिया। रिपोर्ट में बताया

कि इसी दिन दोपहर दो बजे दो गाड़ियों में

आए उक्त लोगों ने श्रवण के घर पहुंचकर

मारने की धमकी दी। जिससे भयभीत श्रवण

घर से निकलकर अपनी बुआ के घर लाडूंबा

चला गया। जहां पर भी आरोपियों ने मोबाइल

पर जान से मारने की धमकी दी। जिससे

डरकर श्रवण ने 10 जनवरी की शाम को

लोहारू में विषाक्त खाकर आत्महत्या कर

दी। प्राप्त जानकारी के अनुसार अरड़ावता

लुहारू में विषाक्त खा लिया जिससे युवक

इस मामले को लेकर अगले दिन 9

नरिया के थप्पड मार दी।

चिड़ावा (सीमा सन्देश सं.)। बारी गांव

टिकट के सच्चे बावेबार हैं, करवाउंगा। वहीं राजकीय केंब्रीय व प्रदेश नेतृत्व से बाकी लोगों का तो कोई आधार कन्या महाविद्यालय, नवोबय टिकट की मांग करता हूं और ही नहीं है। उन्होंने एक निजी स्कूल, सुजानगढ़ को जिला मुझे उम्मीद है कि इस बार उप रेस्तरां में प्रेस वार्ता का बनाने, केंद्र की महत्वपूर्ण चुनाव में मुझे ही टिकट दी आयोजन करके कहा है कि मैं परियोजनाओं को लाने, जायेगी, क्योंकि कुछ नेताओं अगर विधायक बना तो स्व. अभावग्रस्त लोगों का पारदर्शी का तो जनाधार नहीं है, वहीं रवेमचंद प्रकाश और पद्मश्री तरीके से हित करने, रिंग रोड़ कई दावेदार बाहरी हैं, तो कुछ कन्हैयालाल सेठिया की स्मृति का निर्माण करने सहित अनेक दूसरी पार्टियों को छोड़कर आये में ऑडिटॉरियम और इंडोर खेल कार्यों को प्राथमिकता दी हैं, ऐसे में पार्टी मुझे ही टिकट स्टेडियम का निर्माण जायेगी। गुरड़ा ने बताया कि मैं देगी। युवक ने जहर खाकर विद्यार्थियों को उपलब्ध

करवाए स्वेदर्स सुजानगढ़ (सीमा सन्देश सं.)। भंवरलाल काला बाल मंदिर, राजकीय

की प्रेरणा से आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता स्थानीय दिगम्बर जैन समाज के अध्यक्ष 🧶 🔊 🏬 विमल पाटनी ने की। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि

प्रबुद्ध समाज सेवी सुनील जैन 🌉 सड़वाला ने अपने उदबोधन में कहा कि जरूरतमंदों की सेवा पुण्य कार्य है। विशिष्ट अतिथि नगर के

प्रबुद्ध व्यवसायी पवन सोनी व प्राचार्य शिवशरण सिंह थे। क्लब के पूर्व अध्यक्ष दानमल योगदान रहा। शर्मा ने कार्यक्रम का संचालन करते हुए स्व. मदनलाल काला के व्यक्तित्व चिकित्सक व समाज सेवी डॉ मधुसुदन

दी यंग्स क्लब ऑफ सुजानगढ द्वारा भींवसरिया व भराडिया विद्यालय सोमवार को स्थानीय राजकीय प्रेमसुख सहित नगर के विभिन्न शालाओं में भीवसरिया उ. मा. विद्यालय में 145 अध्ययनरत दिव्यांग विद्यार्थियों को जरूरतमंद व दिव्यांग विद्यार्थियों को स्वेटर्स उपलब्ध करवाए गए। शाला नि:शुल्क स्वेटर्स उपलब्ध करवाए गए। प्रधान शीतल मिश्रा ने यंग्स क्लब द्वारा स्व. मदनलाल काला की स्मृति में समय-समय पर प्रदत्त सहयोग के लिए उनके पुत्रों विनोदकुमार, प्रमोद कुमार आभार व्यक्त किया। आयोजन को व रजनीश काला के सौजन्य से तथा सफल बनाने में क्लब प्रतिनिधि गोपाल क्लब अध्यक्ष निर्मल कुमार भतोडिया चोटिया, हाजी मोहम्मद, निर्मल



भूतोडिया, योगेंद्र भोजक, शिक्षक मंगलाराम, मीनाक्षी सोनी, कौशल्या पारीक व बेला पारीक का सराहनीय

कार्यक्रम में नगर के प्रबुद्ध व कृतित्व को रेखांकित किया। क्लब शर्मा के निधन पर शोक संवेदना व्यक्त पंचायत के बारी गांव निवासी युवक ने के सांस्कृतिक सचिव गिरधर शर्मा ने कर श्रद्धांजलि अर्पित की गई तथा दो बताया कि गर्म वस्त्र वितरण योजना मिनट के मौन के साथ कार्यक्रम का

के द्वितीय चरण के माध्यम से स्थानीय समापन हुआ। राजस्थान आवासन मण्डल, वृत-प्रथम, प्रताप नगर, जयपुर कर्माक 11299 जाहिर आम सूचना दि.7.1.202 एकस्थान आवासन मण्डल की प्रताप नगर योजना में आवास सं.180/120

(EWS)(परिया 36 वर्गमीटर) प्रताय नगर सांगानेर का आवंटन कुमारी अंवर्ल

राजों पत्री भी गंगाराम राजों को किया जाकर आसंटन पत्र कर्जाक 980 रिनोक

29.6.2002 के द्वारा जारी किया गया था। औमती भगवानी रेमी पत्नी स्व.अं

ठैकमदास के एक में उक्त आवास का निवमितिकरण एवं क्रमांक 440/44।

रिनोक 16.4,2013 में द्वारा किया गया तथा श्रीमती भगवानी देवी के पश

उक्ता आवास/प्रलेट के पंजीपन प्रयप्त है. 26.6.2013 को उपपंजीयक जपर

अध्य वयपुर में पंजीकृत करवाने गये। श्रीवती भगवानी देशों की मृत्यू दिनांव

25.11.2020 को एजिस्टर्ड हकत्याग पत्र उपर्यजीयक कार्यालय जयपुर पेच

के पक्ष में पंजीबद किया गया श्रीवती जयकरी रेवी कंबलानी पत्नी ह पुरुषोत्तम याम केवलानी द्वारा उक्त आवास को अपने नाम इस्तांतरण कर

हेत् आवेदन किया गया है।अत: उक्त आवास/फ्लंट के इस्तांतरण बाका

किसी व्यक्ति/पत्रकार को कोई आपत्ति हो तो अद्योहस्ताधरकर्ता व

कार्यालय में 7 दिवस में अपनी आपति प्रस्तुत करें अन्यव्य यह मानते हुए

कि मण्डल रिकार्ड में नाम दर्ज करने में किसी को कोई आपति नहीं श्रीमती जयवन्ती देवी कंजलानी फली श्री पुरूपोत्तम दास कंवलानी का नाम

भवरीय, सम्पदा प्रबंधक, वृत-प्रथम, राज. आवा. मण्डल, जयपुर

के वहां श्रीमती जयवन्ती रेवी कंजलानी घली श्री पुरुषोत्तम दास केंबलानं

26.7.2018 को हो जाने के परचात उनके करीसानी द्वारा दिनांक

डॉ. शर्मा का निधन



गणतंत्रदिवस दिवस की पूर्व तैयारियों को लेकर बैठक सम्पन्न

आगामी सप्ताह में 26 जनवरी को होने

वाले राष्ट्रीय पर्व गणतंत्रदिवस दिवस

की पूर्व तैयारियों के मध्यनजर स्थानीय

पालिका सभागार में उप जिला

कलेक्टर रामावतार कुमावत की

अध्यक्षता में बैठक सम्पन्न हुई। बैठक

में राष्ट्रीय पर्व को धूमधाम व मान

सम्मान के साथ साथ कोविड 19 की

गाइड के मध्य नियमों का पालन करते

हुए इस अवसर पर होने वाले विभिन्न

आयोजनों की रूपरेखा को अंतिम रूप

दिया गया।

रतनगढ़ (सीमा सन्देश सं.)।

की मौत हो गई।

सुजानगढ़ (सीमा सन्देश सं.)। शहर के जाने माने चिकित्सक और दी लायंस चेरिटेबल ट्रस्ट सुजानगढ के अध्यक्ष डॉक्टर मधुसुदन शर्मा का निधन हो गया है। ट्रस्ट के सचिव एडवोकेट निरंजन सोनी ने बताया कि डॉ. शर्मा का गत रात्रि को जयपुर के अस्पताल में निधन हो गया। उनकी सामाजिक सेवाओं के लिए वे हमेशां याद किये जायेंगे। वहीं शहर के सभ्रांत लोगों ने डॉ. शर्मा के निधन पर शोक जाहिर करते हुए दु:ख प्रकट किया है।

APM FINVEST LIMITED

Regd. Off: SP-147, RIICO Industrial Area, Bhiwadi, Dist. Alwar, Rajasthan-301019 Ph: 01493-265400, Fax: 01493-265413, CIN: L65990RJ2016PLC054921 E-mail id: apmfinvestltd@gmail.com, Website: www.apmfinvest.com

NOTICE OF BOARD MEETING

Notice is hereby given that pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 that the meeting of the Board of Directors of the Company is scheduled to be held on Saturday, January 23, 2021, inter-alia, to consider and approve the Un-audited Financial Results of the Company for the guarter and nine months ended December 31, 2020 (the "Financial

A copy of this Notice and Financial Results shall also be available at the Company's website www.apmfinvest.com and the website of the Stock Exchange www.bseindia.com. For APM Finvest Limited

Nidhi

तहसीलदार ने निकाली गाडी की हवा

सन्देश सं.)। बेतरतीब वाहन खडे करने से सोमवार को उपखण्ड कार्यालय में सरकारी गाड़ी निकालने में भी परेशानी का सामना करना पडा। तहसीलदार को भी आवश्यक कार्य से बाहर ही गाडी खडी होने से उनकी



और खुद एसडीएम की रखी थी। जिसके बावजुद गाड़ी निकलना भी मुश्किल गाड़ी से खाना हुए। किसी ने गाडी खडी कर हो गया। ऐसे में गस्से में तहसीलदार मुंड ने बताया रास्ते को जाम कर दिया। आए तहसीलदार महेंद्र सिंह कि कार्यालय परिसर में जिस कारण गाडी की हवा मृंड ने सामने खडी गाडी के निकाय चुनाव के चलते निकाली गई

पंचायत समिति की बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा



(सीमा सन्देश सं.)। पंचायत अध्यक्षता में हुई।

विरोध किया। जिस पर एक्सइएन अशोक चौधरी समिति की साधारण सभा ने कहा कि उगिधकारियों की बैठक पंचायत समिति के आदेश पर ही बिजली सभागार में सोमवार को कटौती की जा रही है। स्वछ भारत मिशन के प्रधान इंद्रा डूडी की वीसीआर भरते समय अंतगर्त चिह्नित ग्रामों की कर्मचारी आई कार्ड साथ

बैठक में जनता से रखते हैं। सरपंच संजय जुडे मुलभृत बिजली, पानी सैनी ने लांबा गोठडा में पश् और सड़क जैसे मुद्दों पर उप केंद्र को क्रमोन्नत प्रधान विपिन नूनियां, पंस विशेष चर्चा हुई। विकास करवाने और आवारा अधिकारी ओमप्रकाश पशुओं से जनहानी रोकने, गोदारा ने बैठक के मुद्दों पर पंस सदस्य उमेद धनखड़ डाला। ने किठाना में पश् जनप्रतिनिधियों ने रात को चिकित्सालय बनवाने के चोरी-छिपे घरों में घुसकर मुद्दे उठाए। लांबा गोठड़ा में वीसीआर भरने का भी प्रचलित रास्तों को राजस्व ने किया।

रिकॉर्ड में दर्ज करवाने सहित अन्य मद्दे भी छाए रहे। प्रधान डूडी ने ग्रामीण क्षेत्र में पेयजल समस्या को ध्यान में रखते हुए ट्युबवैल के पाइप बढ़ाने की बात कही। बीडीओ ओमप्रकाश

गोदारा ने नरेगा श्रम बजट अनुमोदन 2021.21 और डीपीआर तैयार करने की जानकारी दी। इस मौके पर उप

सदस्य अमित ओला, अनिल रणवां, रोहिताश्व धांगड़ सहित कासफी जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। संचालन सांख्यिकी अधिकारी रणसिंह चौधरी

किसान संघर्ष यात्रा प्रदेश कांग्रेस सेवादल की यात्रा झुंझुनूं पहुंची

किसान हितैषी कांग्रेस सरकार किसानों के साथः शेखावत

झुंझुनुं (सीमा सन्देश सं.)। दबाव में किसान विरोधी काला कानून विरोधी काला कानून किसानों को और मंजूर नहीं किया जाएगा। इस दौरान बजाय उन पर लाठियां और आंसू गैंस

किसानों के विरुद्ध तीन काले कानून

www.readwhere.com

करते हुए कहा कि केंद्र सरकार मिलाकर खड़ी है।

प्रदेश कांग्रेस सेवादल द्वारा किसानों के लेकर आई हैं, जिसे कभी भी मंजूर अधिक कमजोर करेगा। देश का किसान यात्रा को सेवादल राष्ट्रीय के गोले छोड रही हैं, जिस अंहकार में विरूद्ध लाए गए तीन काले कानून के नहीं किया जाएगा। जब तक इन बिलों अन्नदाता खेत में कडी मेहनत करकर सचिव एवं राजस्थान प्रभारी लालजी केन्द्र सरकार काम कर रही हैं, उनको खिलाफ पुरे राजस्थान में चल रही को वापस नहीं लिया जाएगा, तब तक खेत को सींचता हैं, उसके बाद देश के मिश्रा, राजस्थान सेवादल के प्रकाश मुंह की खानी पडेगी, देश का किसान किसान संघर्ष यात्रा झुंझुनू पहुंची किसानों के सम्मान में यात्रा जारी लोगों तक अनाज पहुंचता हैं, किसानों भर्तियां, सेवादल के राष्ट्रीय सचिव एकजूट हो गया हैं, इस बिल के विरोध जिसको कांग्रेस सेवादल के प्रदेश रहेगी। किसान हितैषी कांग्रेस सरकार को कमजोर करने का काम केन्द्र की राजेंद्र सिंह अवाना, प्रदेश प्रभारी में धरने प्रदर्शन के साथ ही टिकरी अध्यक्ष हेम सिंह शेखावत ने सम्बोधित किसानों के साथ कंधे से कंधा सरकार कर रही हैं। कांग्रेस पार्टी भवंरलाल मिश्रा, कमल सिंह यादव, बोर्डर पर देश का किसान भंयकर सर्दी किसानों के साथ कंधा से कंधा के के शर्मा, जगदीश चंद्र बिश्नोई, में डटा हुआ हैं, किसान विरोधी केन्द्र कांग्रेस सेवादल के प्रदेश संगठन मिलाकर खड़ी हैं, पूरे प्रदेश में किसानों देशबंधु शर्मा, बृज मोहन पाठक, सोहन सरकार को झुकना पड़ेगा।

लेकर आई है जो स्वीकार किए जाएंगे। सचिव एम.डी. चोपदार ने कहा कि के सम्मान में किसान के हित में यात्रा लाल मीणा, प्रवीण सिंह, राजेंद्र शर्मा, किसान सम्मान यात्रा में आए इस बिल से किसान कमजोर होगा, केन्द्र सरकार किसानों पर तीन कृषि निकाली जा रही है। केन्द्र सरकार कुछ मोइनुद्दीन खान सहित अनेक सेवादल के पदाधिकारियों का झुंझुनू इससे सीधा लाभ अंबानी और अडानी बिल थोपकर गलत तरीके से अत्याचार उद्योगपितयों को फायदा पहुंचाने के पदाधिकारियों ने सभा को सम्बोधित कांग्रेस सेवादल के पदाधिकारियों में जैसे बड़े उद्योगपितयों को होगा, केन्द्र कर रही है, जिसके खिलाफ भारत का चक्कर में किसानों पर किसान विरोधी करते हुए कहा कि केन्द्र की मोदी कांग्रेस सेवादल संगठन प्रदेश सिचव की मोदी सरकार ने बडे घरानों के किसान आंदोलन कर रहा है, किसान बिल थौपना चाहती हैं, जिसे कभी सरकार किसानों की बात सुनने की एम. डी. चोपदार, पर्यवेक्षक हारून

CMYK

Results").

Place: New Delhi

Date: 09.01.2021 Company Secretary